



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 1978/फाल्गुन 9, 1899
No. 52] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 1978/PHALGUNA 9, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1978

संख्या एक० 2/9/78/एन०एस०:—राष्ट्रपति एतद्वारा डाकघर (सावधि निक्षेप) नियम 1970
को भागे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों को डाकघर (सावधि निक्षेप) संशोधन नियम, 1978 कहा जायेगा।
- (2) ये पहली मार्च 1978 से प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर (सावधि निक्षेप) नियम 1970 में, नियम 11 के नीचे सारणी क, सारणी ख और सारणी ग तथा टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणियां रखी जायेगी, अर्थात्:—

“सारणी-क (पहली मार्च 1978 से पहले जमा की गई राशियों पर)

अवधि	भ्याज की वार्षिक दर
	प्रतिशत
1 वर्ष	8
2 वर्ष	8½
3 वर्ष	9
5 वर्ष	10

सारणी-ख (पहली मार्च 1978 को या उसके बाद जमा की गई राशियों पर)

अवधि	भ्याज की वार्षिक दर
	प्रतिशत
1 वर्ष	7
2 वर्ष	7½
3 वर्ष	8
5 वर्ष	10”

3. उक्त नियमों के नियम 11-क में, उपनियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात्:—

“(क) समय से पहले खाता बन्द करने के लिये आवेदन पत्र दिये जाने की तारीख को उतने पूरे वर्षों के लिये जब तक कि जमा राशि वास्तव में डाकघर के पास रही थी, वेय भ्याज की दर नियम 11 के अन्तर्गत दी गई सारणी ख में विनिर्दिष्ट दर से 2 प्रतिशत कम होगी।”

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1978

No. F. 2/9/78-NS :—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office (Time Deposits) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the 1st day of March 1978.

2. In the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, for Table-A, Table-B and Table-C and the Note, below rule 11, the following Tables shall be substituted, namely :—

“TABLE-‘A’ (for deposits made before the 1st March 1978)

Period	Rate of interest per annum
1 year	8 per cent
2 years	8½ per cent
3 years	9 per cent
5 years	10 per cent

TABLE-‘B’ (for deposits made on or after the 1st March 1978)

Period	Rate of interest per annum
1 year	7 per cent
2 years	7½ per cent
3 years	8 per cent
5 years	10 per cent”

3. In rule 11-A of the said rules, for clause (a) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) The rate of interest payable shall be 2 per cent less than the rate specified in Table ‘B’ under rule 11, for the completed number of years for which the deposit had actually remained with the post office on the date of application for premature closure.”

K.N. ROW, Jt. Secy.

